

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 259]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 25 जून 2016—आषाढ़ 4, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जून 2016

क्र. बी-8-5-2016-14-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-03-2016-क्रेडिट-II, दिनांक 23 फरवरी 2016 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 मौसम खरीफ एवं रबी के लिये अधिसूचना क्रमांक 189, दिनांक 23 अप्रैल 2016 जारी की गई है. जारी अधिसूचना में मौसम खरीफ 2016 के लिये संलग्न सूची अनुसार पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित फसलों की जिला कटनी, होशंगाबाद, नीमच, खंडवा, सिवनी एवं अशोकनगर के लिये संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ		वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार						
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा	
कटनी	ठीमरखेडा	उमरियापान									
			00001	PADARBHATA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	
			00002	MAHAGAWAN	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	
			00003	PONIYA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	
			00004	SAILARPUR	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	
			00005	KANOJA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	
			00006	BHULA		धानअसिंचित	-	-	-	-	
			00007	SARSWAHI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	
			00008	DHARWARA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	
			00009	IMALIA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	
			00010	MARHANA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	
			00011	BARELI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	
			00012	TOLA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	
			00013	DEORIMANGELA	धानसिंचित		-	-	-	-	
			00014	MAGELI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	
			00015	BARODA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	
			00016	PACHPEDI		धानअसिंचित	-	-	-	-	
			00017	UMARIAPAN	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	
			00018	GHUGHARI		धानअसिंचित	-	-	-	-	
			00019	GHUGHARA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	
			00020	PARSEL	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	
			00021	KACHHARGAW		धानअसिंचित	-	-	-	-	
			00022	MAHNER		धानअसिंचित	-	-	-	-	
			00023	BAMHNI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	
			00024	HARDI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	
			00025	PIPARIYASAPHLAVAN		धानअसिंचित	-	-	-	-	
			00026	DEORIPATHAK	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	
			00027	BHATGAWAN		धानअसिंचित	-	-	-	-	
			00028	KHANDWARA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-	
	ठीमरखेडा										
			00029	JIRRI	धानसिंचित	-	-	-	-	-	
			00030	BHAMKA	धानसिंचित	-	-	-	-	-	
			00031	JHINNAPIPARIA	धानसिंचित	-	-	-	-	-	
			00032	BANDH	धानसिंचित	-	-	-	-	-	
			00033	SAGONA	धानसिंचित	-	-	-	-	-	
			00034	PIDRAI	धानसिंचित	-	-	-	-	-	
			00035	BARELI	धानसिंचित	-	-	-	-	-	
			00036	DHIMARKHEDA	धानसिंचित	-	-	-	-	-	
			00037	THIRRI	धानसिंचित	-	-	-	-	-	
			00038	SIMARYA	धानसिंचित	-	-	-	-	-	
			00039	DEORI	धानसिंचित	-	-	-	-	-	
			00040	SANKUI	धानसिंचित	-	-	-	-	-	
			00041	MURWARI	धानसिंचित	-	-	-	-	-	
			00042	PODIKALA	धानसिंचित	-	-	-	-	-	
			00043	PODIKHURD	धानसिंचित	-	-	-	-	-	
			00044	PIPARTASHUKL	धानसिंचित	-	-	-	-	-	
			00045	BARHI	धानसिंचित	-	-	-	-	-	
			00046	KHAMHA	धानसिंचित	-	-	-	-	-	
			00047	ANTARVED	धानसिंचित	-	-	-	-	-	
			00048	DASHARMAN	धानसिंचित	-	-	-	-	-	
			00049	ITOLI	धानसिंचित	-	-	-	-	-	
			00050	BARHTA	धानसिंचित	-	-	-	-	-	
			00051	KHAMRIA	धानसिंचित	-	-	-	-	-	
			00052	GAURA	धानसिंचित	-	-	-	-	-	

		00053	KACHHARGAW	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00054	GHANA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00055	GOPALPUR	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00056	KUDA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00057	PALI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00058	LALPUR	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00059	ATARSUMA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00061	NEGAI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00062	KACHNARI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00063	MAHAGAWA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00064	DADARSIHUDI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00065	KOTHI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00066	KATRIA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00067	ATRIA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00068	DEORI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00069	PAHRUA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00070	KHAMTARA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00071	BICHUA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00072	KHAMHRIA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00073	AMAJHAL	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00060	SILODI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	बडवारा								
		बडवारा							
		00001	MAJHAGWAN	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00002	PATHRA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00003	BADERA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00004	BHAGANWARA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00005	BADAGAWN	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00006	NANHWARA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00007	BACHARWARA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00008	RUPOUND	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00009	BADWARAKALA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00010	LAKHAKHERA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00011	ROHANTA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00012	BANDRI		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00013	BANEHARA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00014	AMADI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00015	NANHWARAKALA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00016	BARCHEKA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00017	NIGAHRA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00018	BASADI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00019	SUDDI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00020	BHADORA-2	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00021	SAKRIGARH	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00024	LUHARWARA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00025	GUDAKALA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00030	VILAYATKALA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00031	SALAIYA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00033	BARGAWA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00034	BAJIYA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00035	PASOKHAR	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00036	KACHHARI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00037	BIJORI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00038	PATHWARI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00040	BHUDSA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00041	PARSEL	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	बरही								
		बरही							
		00001	sirojagadriya	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-

		00002	PIPAIKAKALA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00003	KHIRHNI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00004	PARASWARAKALA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00005	CHHIDAHAIPRIA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00006	LURMI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00007	BANAGAWAN	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00008	BUJBUJA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00009	KARODIKHURD	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00010	BARHI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00011	KANNOR	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00012	BICHPURA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00013	KARODIKALA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00014	KATHIAMAHAAGAWAN	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00015	NADAVAN	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00016	SUTARI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00017	BARANMAHAGAWAN	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00018	SALIASIHOHA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00019	KUWA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00020	BAMANI		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00021	KARELA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00022	HADRAHTA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00023	KHITOLI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00024	BAMHORI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00025	JAGUA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00026	HARRWAH	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	मंडवारा(कट नी)								
	पहाडी								
		00028	SARSWAHI		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00029	KATANGIKALA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00030	JHALWARA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00031	PADRIYA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00032	HIRWARA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00033	PIPARIA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00035	KACHHAGWAN		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00045	DEORITOLA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00046	PADUA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00047	GAITRA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00048	BADKHERA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00049	HIRAPURKAUDIA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00050	BHANPURA-1	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00052	TAKHALA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00053	JARWAHI		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00054	PIPRODH	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00055	LAKHAPTERI		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00056	BANDA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00057	PAHADI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00058	BHANPURA-2	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00059	BICHUA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00060	SAHPUR	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00061	GUBRADHARI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00062	SINGHANPURI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00063	KEVLARI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00064	SALAIYA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00065	DEORIHATAI		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00066	TERHI		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00051	CHAHARI		धानअसिंचित	-	-	-	-

	मडवारा-1	00043	CHHAPARWAH	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	मडवारा-2	00001	BAREDA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00004	KACHHAGAWAN		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00005	BISTRA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00006	JOBIKALA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00007	DITHAWARA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00008	KHAMTARA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00009	PILOJI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00010	KANHWARA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00011	MATWARPADRIYA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00012	PATWARA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00013	KAILWARAKALA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00014	GHAGHARIKHURD	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00015	GHANGHARIKALAL	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00016	KHADOLA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00017	HARDUA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00018	KUDO		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00019	KHARKHARI		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00020	POSARA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00021	KAILWARAKHURD		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00023	CHAKA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00024	JUHLI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00025	MADAI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00026	DEORAKHURD	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	रीठी								
	रीठी	00001	NAYAKHEDA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00002	GODANA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00003	KATHOTIA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00004	BADGOWAN	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00005	TIGHARAKALA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00006	GURDIKALA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00007	LALPURA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00008	AMAGAWAN	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00009	NAIGAWAN		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00010	BAKLEHTA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00011	KAINA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00012	BARJI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00013	RUDMUD		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00014	BHARATPUR		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00015	PATEHRA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00016	KARAHIYA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00017	SIMRADI		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00018	DANG		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00019	MUHAS	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00020	UMARIA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00021	BASUDHA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00022	BARAHTA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00023	RITHI		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00024	DHANIYA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00025	HARDWARA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00026	SIMRA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00027	KHAMHRIA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00029	DEORAKALA		धानअसिंचित	-	-	-	-
	विलहरी	00028	SAIDA		धानअसिंचित	-	-	-	-

		00021	BARAHTA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00022	RAJARWARA 2	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00049	PIPRA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00054	KHAJURA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00055	SIGHANPURA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00058	CHAPANA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00059	PATHARAHTA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00060	SINGODI		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00061	KUNDREHI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00062	SIJAHRA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00063	URDANI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00064	GOHAWAL	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00065	DIDHI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00066	DEORAKHURD		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00067	DOKARIA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00068	DHAVAIYA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00069	UBARA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00070	TIMUA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00071	GAJRTALAI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00074	ITORO		धानअसिंचित	-	-	-	-
	होरीबन्द								
		बहोरीबन्द							
		00023	SUPELI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00024	PAKAR	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00025	RAMPATAN	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00026	MOHANIYA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00027	AMGAVAN	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00028	BAHORIBAND	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00029	TIGWAN	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00030	DIHOTA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00031	PATHDADI PIPARIYA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00032	KUDA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00033	JUJHARI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00034	DEWRI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00035	BADKHEDA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00036	MOHANIYA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00037	KUDAN	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00038	SIMRAPATI	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00039	SINDURSI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00040	TAMURIYA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00041	KAKREHTA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00042	HATHIYAGAD	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00052	RAKHI		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00053	KUWA	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00054	SALAYA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00043	AMARGADH	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00044	SOMAKALA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00045	BACHYA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00046	BUDHANWARA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00047	BHAKHARWARA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00048	PAUDI	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00049	KIRHAI PIPARIYA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00050	BADKHEDA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00051	NEEMKHEDA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
	बाकल								
		00001	GAURHA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00002	IMALIYA	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-	-
		00003	KHAMARIYA		धानअसिंचित	-	-	-	-
		00004	KUDA		धानअसिंचित	-	-	-	-

(Handwritten signature)

		00005	PATIRAJA		धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	MASANDHA	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	AMADI		धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	CHADANKHEDA		धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	BASAN	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	BAKAL	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	MAJHAGVAN		धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	PATIKALA	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	KUMHARWARA	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	PATORI	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	SIHODI	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	PIPARIYA	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	PATNA	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	KIWLARHA	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	MOHTARA		धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	KHAMTARA	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00021	BARTARA		धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	BARHI	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
	स्त्रीमनाबाद								
		00055	JUJAWAL	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00056	NIMAS	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00057	AMOCH	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00058	CHAPRA	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00059	SALYA PHATAK	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00060	SIHODI	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00061	SLEEMNABAD	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00062	PADWAR	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00063	KAUDIYA	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00064	BANDHI	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00065	DHURI	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00066	CHARGWAN	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00067	MAVAI	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00068	PAHAROVA	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00069	KHIRAHNI	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00070	TIHARI	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00071	BHEDA	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00072	BICHUVA	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00073	SALAYA PYASI	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00074	TEWRI	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00075	LAKHANWARA	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00076	GUDRI	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00077	SANSARPUR	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00078	MATWARA	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00079	BANDHI	धानसिचित	-	-	-	-	-

संशोधित

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

(8)

मौसम खरीफ		वर्ष	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की										
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा			
होशंगाबाद	इटारसी	इटारसी	00001	बीसरोडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00002	बोरतलाई	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00003	धुरपन	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00004	नयागांव	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00005	तीखड	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00006	मलोथर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00007	टांगना	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00008	डोबी उर्फ तालपुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00009	जमानी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00010	बाबई खुर्द	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00011	भट्टी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00012	मेहरागांव	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00013	इटारसी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00014	सोनासावरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00015	रेसलपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-			
			केसला	केसला	केसला	00037	पथरोडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
						00038	जुझारपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
						00039	देहरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
00040	गोचीतरौदा	धानसिंचित				-	सोयाबीन	-	-	-			
00041	पीपलदाना	धानसिंचित				-	सोयाबीन	-	-	-			
00042	ताकू	-				-	सोयाबीन	-	-	-			
00043	केसला	-				-	सोयाबीन	-	-	-			
00046	भरगदा	धानसिंचित				-	-	-	-	-			
00048	सहेली	धानसिंचित				-	-	-	-	-			
00049	चारदेकरा	धानसिंचित				-	-	-	-	-			
00051	पिपरिया खुर्द	-				-	सोयाबीन	-	-	-			
00052	छीत्तापुरा	धानसिंचित				-	-	-	-	-			
00053	चांदकिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-						
00054	साधपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-						
00057	सिलवानी	धानसिंचित	-	-	-	-	-						
00058	डंडीवाडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-						
रामपुर	रामपुर	रामपुर	00016	तारासोडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00017	लोहारिया कलां	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-			
			00018	पाहनवरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-			

		00020	सिलारी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	मरोडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00022	बिछुआ	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	सोनतलाई	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	बेलावाडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	गजपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	चिन्लाई	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	गुर्प	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	दमदम	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	सनखेडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	सोमनवाडा खुर्द	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	घादोन	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	कोदई कला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	नागापुर कला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	पांडुखेडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	घाटसी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
	डीलरिया								
	डीलरिया-१								
		00001	नानगा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	बुन्डारा कला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	ओवरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	मिसरोड		-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	टेमला कला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	दतवासा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	कोटसाखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	बघवाडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	चदवाडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	रतवाडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	सील		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	रोडगा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	बन्डगाय कला		-	सोयाबीन	-	-	-
	डीलरिया-२								
		00014	खरखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	गुलौरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	कान्हाखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	मोहरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	आमपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	बेहराखेडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	घाईखेडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	भीलाखेडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	सैमरी खुर्द	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	डीलरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	दावा खुर्द		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	दावा कला		-	सोयाबीन	-	-	-
	पिपरिया								
	लरोनकला								
		00033	राइखेडी	धानसिंचित	-		-	-	-

		00035	वनवारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00038	तरौन कला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	खीरीकला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	गुहारी कला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00042	सिमार	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00044	पनारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00045	रिछडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00046	बोड़ी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00047	नंदयाडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	पिपरिया				-		-	-	-
		00017	खिडिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00018	सिलारी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	सुरता कला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	देवगांव पिपरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	रामपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	महनयाडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00024	पोंसेरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00025	खेरुआ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00026	सिरपन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00027	पारखी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	कन्हयार	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	ग्रंसखेडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	सिघोडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	ठूठ दहलवाडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00032	पाली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	मटकुली				-		-	-	-
		00051	देकापार	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00049	पिसुआ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	सांडिया				-		-	-	-
		00001	संहनयाडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	सियनी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	सांडिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00004	सुरता किशोर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	खैरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	संभरीतला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	माधनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00008	पयसावरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	झालोन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00010	पुनोर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00011	धनासरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00012	गाडाघाट	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00013	उटिया किशोर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00014	जमारा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00015	झापरखेडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00016	मरका दाना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
बनखेडी					-		-	-	-
	उमरधा				-		-	-	-

		00001	उमरपा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	शंभुपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00003	परसवाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00004	पुरनाकला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00005	तिसरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00006	सलेया किछोर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00007	करपा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00008	निर्भौरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00009	सोमखेड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00010	बेदर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00011	मलकजरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00012	हुमर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00013	पुरनारघोर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00014	बारछी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00015	अन्नाई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00016	सुरनारघोर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	जमुनिनारघोर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
	घादिन								
		00018	घादिन	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	श्रीपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00020	देवरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	कलंगवा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00024	जासरवाली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00025	कपुरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00026	मछेरीकला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00027	परसवाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00028	माहनवाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00029	पलिया पिपरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00030	तिदवाड़ा+ध	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00031	गरपा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	ईधरपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	धपरिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	कैसला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	प्रीठी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
	मनखेड़ी								
		00036	सायाथानी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00037	मनखेड़ी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00038	नगवाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00039	जुन्हेटा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00040	पधरकुही	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00041	रहटवाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00042	दहलवाड़ाकला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00043	सिंगपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00045	पोजरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00046	कलकुही	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00047	मैदाखेड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00048	नयागांव	धानसिंचित	-	-	-	-	-

		00049	गुआखिडा	धानसिंचित				
		00050	पडरईअकुर	धानसिंचित				
		00051	अनाधानी (दामा)	धानसिंचित			तुअर	
		00053	कोटरी	धानसिंचित				
		00054	कामती	धानसिंचित				
		00055	मुगीठाना	धानसिंचित				
		00056	कंनरसई	धानसिंचित				
बाबई								
	आरी							
		00001	गोरा	धानसिंचित			सोयाबीन	
		00002	सुंकरवाडाफला	धानसिंचित			सोयाबीन	
		00003	गुडला	धानसिंचित				
		00004	कडेठे+या	धानसिंचित			सोयाबीन	
		00005	मांगरोल	धानसिंचित			सोयाबीन	
		00006	सुधनी	धानसिंचित			सोयाबीन	
		00007	बीकोर	धानसिंचित			सोयाबीन	
		00008	बीकोरी	धानसिंचित			सोयाबीन	
		00009	मजोजनपुर	धानसिंचित			सोयाबीन	
		00010	मोहरसा	धानसिंचित				
		00011	सांगारखेडाफला	धानसिंचित				
		00012	घपेलासर	धानसिंचित				
		00013	गुराडिया मोती	धानसिंचित				
		00014	महायन	धानसिंचित				
		00015	आरी	धानसिंचित			सोयाबीन	
		00016	अजजरवाडा	धानसिंचित				
		00017	मनवाडा	धानसिंचित				
		00018	आंधतखेडा	धानसिंचित				
		00019	सुआखेडी	धानसिंचित				
		00020	पवारखेडाखुर्द	धानसिंचित				
		00021	जायली	धानसिंचित				
	गनेरा							
		00022	संगीन	धानसिंचित			सोयाबीन	
		00023	बगलीन	धानसिंचित			सोयाबीन	
		00024	धामसुखेडी	धानसिंचित			सोयाबीन	
		00025	खरगावली	धानसिंचित			सोयाबीन	
		00026	मुंडियाखेडा	धानसिंचित			सोयाबीन	
		00027	गनेरा	धानसिंचित			सोयाबीन	
		00028	नसीरामाव	धानसिंचित			सोयाबीन	
		00029	बठवाडा	धानसिंचित			सोयाबीन	
		00030	कोठरवाडा	धानसिंचित			सोयाबीन	
		00031	भारागाव	धानसिंचित			सोयाबीन	
		00032	सांगारखेडाखुर्द	धानसिंचित			सोयाबीन	
		00034	उमरखेडी	धानसिंचित				
		00035	चौराहेट	धानसिंचित				
		00036	तालकेसरी	धानसिंचित			सोयाबीन	
		00037	पाटनी	धानसिंचित			सोयाबीन	
		00038	फुरतला	धानसिंचित			सोयाबीन	

		00039	गौदलवाड़ा	धानसिंचित	सोयाबीन			
		00040	रेपुरा	धानसिंचित	सोयाबीन			
		00041	खिडिया	धानसिंचित	सोयाबीन			
	बाबई							
		00042	सिरवाड़	धानसिंचित	सोयाबीन			
		00043	बुधवाड़ा	धानसिंचित	सोयाबीन			
		00044	शिवपुर	धानसिंचित	सोयाबीन			
		00045	बहारपुर	धानसिंचित	सोयाबीन			
		00046	गौल		सोयाबीन			
		00047	नुराडिया कला	धानसिंचित	सोयाबीन			
		00048	कोसखेड़ा	धानसिंचित	सोयाबीन			
		00049	असखमऊ	धानसिंचित	सोयाबीन			
		00050	बाबई	धानसिंचित				
		00051	रजौन	धानसिंचित				
		00052	भूलरवाड़ा	धानसिंचित				
		00053	कोटगाव	धानसिंचित				
		00054	वागड़ा मानगाव	धानसिंचित				
		00055	मोहगाव	धानसिंचित				
		00056	काजलखेड़ी	धानसिंचित	सोयाबीन			
		00057	महेन्द्रवाड़ी		सोयाबीन			
		00058	गुलीन	धानसिंचित	सोयाबीन			
		00060	खारदा		सोयाबीन			
	सिवली-मालवा							
	खपरिया							
		00052	रामपुरा		सोयाबीन			
		00053	मुडियाखेड़ी		सोयाबीन			
		00054	लोपडी		सोयाबीन			
		00055	अमलाड़ा डोमर		सोयाबीन			
		00056	पयावा		सोयाबीन			
		00057	मकड़ाई		सोयाबीन			
		00058	गवाड़ी		सोयाबीन			
		00059	चौतलाय		सोयाबीन			
		00060	सोयत		सोयाबीन			
		00061	झिन्लाय		सोयाबीन			
		00062	खपरिया		सोयाबीन			
		00063	रेहडा		सोयाबीन			
		00064	भोगिया		सोयाबीन			
		00065	हरपालपुर		सोयाबीन			
		00066	मिल्लाडिया कला		सोयाबीन			
		00067	रजौन कुर्मी		सोयाबीन			
	पगढाल							
		00015	बिसौनी कला		सोयाबीन			
		00016	कोठरा		सोयाबीन			
		00017	निरखी		सोयाबीन			
		00018	मैरीपुर		सोयाबीन			
		00021	जीराखेर		सोयाबीन			
		00022	पगढाल		सोयाबीन			

		00023	भाबडिया गाँव		सोयाबीन			
		00024	रावन्नीपल		सोयाबीन			
		00025	धामनिया		सोयाबीन			
		00026	वासनिया कला		सोयाबीन			
		00027	फरीदपुर		सोयाबीन			
		00028	अमलाडा कला		सोयाबीन			
		00029	घोकीमाफी		सोयाबीन			
		00030	गुरुजघाट		सोयाबीन			
		00031	नवलगाँव		सोयाबीन			
		00032	घाना		सोयाबीन			
		00033	सादर		सोयाबीन			
		00034	लोखरतलाई		सोयाबीन			
		00035	सामरघा		सोयाबीन			
		00019	भरतान		सोयाबीन			
		00020	घोकीगवा		सोयाबीन			
	शिवपुर							
		00001	उमरिया		सोयाबीन			
		00002	सुधगाँव		सोयाबीन			
		00003	अधलागाँव		सोयाबीन			
		00004	सीछी		सोयाबीन			
		00005	मिलाडिया खुर्द		सोयाबीन			
		00006	भिसादेह		सोयाबीन			
		00007	कजली		सोयाबीन			
		00008	वायरी		सोयाबीन			
		00009	यनाडा		सोयाबीन			
		00010	गुराहियाजाट		सोयाबीन			
		00011	धुआ		सोयाबीन			
		00012	घामडा ग्रहण		सोयाबीन			
		00013	शिवपुर		सोयाबीन			
		00014	नाहरकोला खुर्द		सोयाबीन			
	सतयासा							
		00068	रुजीराजाट		सोयाबीन			
		00069	परजकुडी		सोयाबीन			
		00070	सतयासा		सोयाबीन			
		00071	खुटयासा		सोयाबीन			
		00072	हिरनवेडा		सोयाबीन			
		00073	भडंग चौखली		सोयाबीन			
		00074	सोमलवाडा		सोयाबीन			
		00075	खारदा		सोयाबीन			
		00076	भमईदेव		सोयाबीन			
		00077	गाजलपुर		सोयाबीन			
		00078	भमई		सोयाबीन			
		00079	नाहरकोला कला		सोयाबीन			
		00080	झाडबीडा		सोयाबीन			
		00081	बटकी उर्फ इकलानी		सोयाबीन			
		00082	सोता चौखली		सोयाबीन			
		00083	नंदरवाडा		सोयाबीन			

		00041	श्रीमपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	नीमनमूदा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00051	अजेरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00052	भाछा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00053	तिघड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00054	वाजलखेड़ी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00055	चंदेरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00056	टिकवाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00058	रानी पिपरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00059	मोकलवाड़ी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00061	बमारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00063	बरुआदाना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00045	गुरारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00046	वादीखेड़ी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00047	महुआखेड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	होशंगाबाद								
	होशंगाबाद-1								
		00001	तालनगरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00002	रवाल	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00003	परीदेह	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बछेदिया कला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	पालनपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	सावसखेड़ा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	रोहना	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	खेडला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	डीगरवाड़ा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	रसुनिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	मालाखेड़ी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00012	बुघवाड़ा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00013	डन्नाखेड़ी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00014	साकेत	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	होशंगाबाद-2								
		00015	ब्यायरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00016	निटाया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00018	कुलामडी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	रायपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00020	जोसलपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00021	निमसाहिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		00022	पन्जरा कला	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	मेहराघाट	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-

शेखनी									
		00041	गारवेडी रैयत			सोयाबीन	-	-	-
		00063	धावडी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00071	खानेगांव			सोयाबीन	-	-	-
पुनासा	पुनासा	00044	पुनासा			सोयाबीन	-	-	-
		00053	गुलगांव रैयत			सोयाबीन	-	-	-
		00054	जलकुआ			सोयाबीन	-	-	-
	भांधासा	00001	मोरटक्का माफी			सोयाबीन	-	-	-
		00009	गुंजली			सोयाबीन	-	-	-
		00011	खेडी वृजुंग			सोयाबीन	-	-	-
		00012	मथेला			सोयाबीन	-	-	-
		00016	घोघलगांव			सोयाबीन	-	-	-
		00017	एखण्ड			सोयाबीन	-	-	-
	मूदी	00060	डावरी			सोयाबीन	-	-	-
		00077	वीड			सोयाबीन	-	-	-
	मोहना	000: 0	ईन्धावडी			सोयाबीन	-	-	-
		00021	गुजर खेडी			सोयाबीन	-	-	-
		00032	देवता रैयत			सोयाबीन	-	-	-
		00033	खुटला कला			सोयाबीन	-	-	-
		00035	कोदवार			सोयाबीन	-	-	-
		00036	नयल गांव			सोयाबीन	-	-	-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ	रा.नि.म.का नाम	वर्ष	2016-2017		100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार						
				पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा	
सिवनी	करई	करई										
			00038	चन्द्रपुर			धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00039	पिण्डरई			धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00040	करई			धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00041	बिछुआ मा.	धानसिंचित		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00042	पिपरिया			धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00043	सेटेवानी			धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00045	मोहगांव यादव	धानसिंचित		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00046	जीरेवाडा			धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00047	संतोषा			धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00049	कोहका	धानसिंचित		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00050	पचधार			धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00052	खण्डसा	धानसिंचित		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00055	पाटन	धानसिंचित		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00056	धनौली	धानसिंचित		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00057	कुडवा	धानसिंचित		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00058	धोबीटोला मा0	धानसिंचित		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00059	रमपुरी	धानसिंचित		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00060	पिंडरई	धानसिंचित		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00061	पीपरवानी	धानसिंचित		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00062	जटासा	धानसिंचित		-	-	-	-	-	-
		सुकतरा										
			00001	चक्कीखमरिया	धानसिंचित		धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00002	जोगीवाडा			धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00003	ग्वारी			-	-	-	-	मक्का	-
			00004	बेलपेट			धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00005	परासपानी			धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00006	विजयपानी			धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00007	सरोहिरी			धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00008	सागर			धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00009	बुडडी			-	-	-	-	मक्का	-
			00010	सापापार			-	-	-	-	मक्का	-
			00011	कोहका			धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00012	डूटेरा			धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00013	पतरई			धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00014	मोहगांव			धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00015	बादलपार	धानसिंचित		धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00016	डुगरिया			-	-	-	-	मक्का	-
			00017	खाखरा	धानसिंचित		धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00018	सिल्लोर	धानसिंचित		-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			00019	सारसडोल	धानसिंचित		-	-	-	-	मक्का	-
			00020	आमगांव	धानसिंचित		धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00021	थावरझोडी			-	-	-	-	मक्का	-
			00022	ऐरमा			-	-	-	-	मक्का	-
			00023	सुकतरा रै.	धानसिंचित		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00024	कलबोडी	धानसिंचित		-	-	-	-	मक्का	-
			00025	गोडेगांव	धानसिंचित		धानअसिंचित	-	-	-	-	-
			00026	मोहगांव	धानसिंचित		धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-
			00027	छीतापार	धानसिंचित		धानअसिंचित	-	-	-	मक्का	-

					धानसिंचित	धानअसिंचित			मक्का
			00028	परतापुर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-
			00029	लोवेसरा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-
			00030	बकौडी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-
			00031	तुईयापार	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-
			00032	धोबीसरा	धानसिंचित	-	-	-	-
			00033	साखादेही	-	धानअसिंचित	-	-	-
			00034	दरासीखुर्द	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-
			00035	दरासीकला	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-
			00036	मूडापार	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-
			00037	झालागांवी	-	धानअसिंचित	-	-	-
	केवलारी								
		उगली							
			00047	सोनखार	धानसिंचित	-	-	-	-
			00048	नेवरगांव	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-
			00050	रूमाल	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-
			00051	सारसडोल	धानसिंचित	-	-	-	-
			00052	बावली	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-
			00053	मोहवरा	धानसिंचित	-	-	-	-
			00054	उगली	धानसिंचित	-	-	-	-
			00055	खामी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-
			00056	मलारी	धानसिंचित	-	-	-	-
			00057	चिखली	धानसिंचित	-	-	-	-
			00058	धूरवाडा	धानसिंचित	-	-	-	-
			00059	खेरी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-
			00060	ढुटेरा	धानसिंचित	-	-	-	-
			00061	सरडी	धानसिंचित	-	-	-	-
			00062	सरेखाकला	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-
			00063	विभारी	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-
			00064	सकरी	-	धानअसिंचित	-	-	-
			00065	पांडीवाडा	-	धानअसिंचित	-	-	-
			00066	रतनपुर	-	धानअसिंचित	-	-	-
			00067	चिपरिया	-	धानअसिंचित	-	-	-
			00068	बेलगांव	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-
			00069	उगदीवाडा	-	धानअसिंचित	-	-	-
			00070	नसीपुर	-	धानअसिंचित	-	-	-
			00071	दुरंदा	-	धानअसिंचित	-	-	-
			00072	बागडोंगरी	-	धानअसिंचित	-	-	-
			00073	पा0 छपारा	-	धानअसिंचित	-	-	-
			00074	जवनारा	-	धानअसिंचित	-	-	-
			00075	खुरसुरा	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-
			00076	कनारी	-	धानअसिंचित	-	-	-
			00077	भरवेली	-	धानअसिंचित	-	-	-
			00078	बनाथर	धानसिंचित	धानअसिंचित	-	-	-
	केवलारी								
			00016	परासपानी	-	धानअसिंचित	-	-	-
			00017	डोकररांजी	-	धानअसिंचित	-	-	-
			00018	बिनेकी	-	धानअसिंचित	-	-	-
			00019	मलारा	-	धानअसिंचित	-	-	-
			00020	खरसारू	-	धानअसिंचित	-	-	-
			00021	खापा	-	धानअसिंचित	-	-	-
			00022	बन्देली	-	धानअसिंचित	-	-	-
			00023	अहरवाडा	-	धानअसिंचित	-	-	-
			00024	केवलारीखेडा	-	धानअसिंचित	-	-	-
			00025	टाली	-	धानअसिंचित	-	-	-
			00026	खुरसीपार मा0	-	धानअसिंचित	-	-	-
			00027	माल्हनवाडा	-	धानअसिंचित	-	-	-
			00028	छींदा	-	धानअसिंचित	-	-	-
			00029	पोंगार	-	धानअसिंचित	-	-	-

		00030	रायखेडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	तिन्दुवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	गुबरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	पुतरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	सुन्देरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00035	गुवारी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00036	खैरराजी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	बिछुवा रै.		धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	सुकतरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	बोधिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	डोभ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	केवलारी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	अल्लोनीखापा मा0		धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	झोला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	बगलई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	जामूनपानी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00046	अर्जुनझिर		धानअसिचित	-	-	-	-
	पलारी								
		00001	डुंगरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	खापा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00003	गुवारी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	घंसौर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	चिरघिरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	पिपरिया कला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	मैरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	खैरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	लोपा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	मुनगापार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	सरेखा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	पांजरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	झगरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	पाथरफोडी मा0		धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	ढुटेरा		धानअसिचित	-	-	-	-
	घंसौर								
	कहानी								
		00001	कली रै0		धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	नयेगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	दलका पाडीवाडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	साल्हैपानी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	दुर्जनपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	पनारझिर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	बरेला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	रूपदोन मा.		धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	सारसडोल		धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	बिनेकीकला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	बरौदा मा.	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	सरोरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	मेहता		धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	दारोटकला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	बटवानी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	कहानी		-	-	-	-	-
		00032	गोल्हिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	रमपुरी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	सुचानमेटा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00035	अगरिया खुर्द	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
	घंसौर								
		00036	लुटमरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	ईश्वरपुर		धानअसिचित	-	-	-	-

		00038	बालपुर मा.		धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	खैरीकला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	छीतापार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	खमरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	डुंगरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	निधानी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	भालीवाडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00046	पहाडी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	केवलारी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	बंदम		धानअसिचित	-	-	-	-
		00049	बिनीरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	कुडोपार		धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	घोटखेडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	बरगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	मानेगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	मोहगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00055	गोकलधाना		धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	पौडी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00057	किन्दरई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00058	धुमा मा0		धानअसिचित	-	-	-	-
		00059	पददीकोना		धानअसिचित	-	-	-	-
		00060	व्योहारी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00061	झुरकी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00062	झिंझरई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00063	धनवाही		धानअसिचित	-	-	-	-
		00064	बुधरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00065	पाटन		धानअसिचित	-	-	-	-
		00066	फुल्हेरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00068	चरगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00069	पुटरई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00070	अंडिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00071	बम्हनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00072	सालीवाडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00073	भिलाई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00074	पिपरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00075	खामदेही		धानअसिचित	-	-	-	-
		00077	बकसी		धानअसिचित	-	-	-	-
	छपारा								
		चमारी							
		00001	धुघसा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00002	सुकरी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00003	गोरखपुर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00004	बबईया		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00005	तैदनी		-	-	-	मक्का	-
		00006	लाठगांव		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00007	झिरी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00008	पहाडी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00009	देवरीकला		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00010	कैकडा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00011	पौडी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00012	मुंडरई		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00013	देवगांव		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00014	तिन्सा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00015	जोगीवाडा		-	-	-	मक्का	-
		00016	ईमली पठार मा.		-	-	-	मक्का	-
		00017	डागावानी		-	-	-	मक्का	-
		00018	चमारी खुर्द		-	-	-	मक्का	-
		00019	ईमलियां र.		-	-	-	मक्का	-

		00020	नांदिया-कला		-	-	-	मक्का	-
		00021	खमरिया		-	-	-	मक्का	-
		00022	मडवा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00023	माहलपानी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00024	बीजादेवरी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00025	पीपरदाना		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00026	तुलफ र.		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00027	लेकवाह		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00028	दरबई		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00029	केवलारी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00030	रामगढ		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00031	बकोडा		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00032	सागर		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00033	भटमतरा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00034	लुङगी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			छपारा						
		00035	खैरी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00036	पायली खुटे		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00037	सुआखेडा		-	-	-	मक्का	-
		00038	गोहना		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00039	सादकसिवनी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00040	बिछुआ बरी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00041	छपारा कला		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00042	डू.छपारा		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00043	खुरसीपार		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00044	गोरखपुर		-	-	-	मक्का	-
		00045	प्रतापगढ		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00046	बिहिरिया		-	-	-	मक्का	-
		00047	अंजनिया		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00048	बिलकटा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00049	भीमगढ र.		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00050	गंगई र.		-	-	-	-	-
		00051	सुकरी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00052	कौडिया मा.		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00053	सागर		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00054	पायली		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
			धनौरा						
			धनौरा						
		00001	खमरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	हिगवानी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00003	घाटपिपरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	ग्वारी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	सालीवाडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	पिपरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	सलेमा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	सर्रा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	तुआ धोधरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	मुर्गहाई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	मढदेवरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	बेगरवानी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	पिड्डाबोडी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	लाबेसरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	गनेरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	घोधरी मा.		धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	धनौरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	साजपानी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	बरेली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	उमरपानी		धानअसिचित	-	-	-	-

		00021	गुधना		धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	जामुनपानी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	झलवानी मा.		धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	धनीरा खुर्द		धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	चिपरिया		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00026	कुड्डो		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00027	बम्होडी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00028	बगहाई		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00029	बारागौर		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00030	रावठान		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00031	सुकवाह		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00032	आमानाला		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00033	अमोली		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00034	सूनवारा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00035	सकरी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00036	गोरखपुर		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00037	हरई		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00038	नोनिया		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00039	बोरिया		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00040	देवरी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00041	हरदुली		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00042	बरबसपुर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00043	भुरकुडी		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00044	दोदावानी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00045	कुडारी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00046	धावरी		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00047	देवरी टीका		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
	बरघाट								
		बरघाट							
		00001	बम्होडी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	पिंडरईखुर्द	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00003	साल्हैखुर्द (सी.च.)		धानअसिचित	-	-	-	-
		00004	केसला	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	सिंगपुर	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00006	खुरसीपारकला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	बोरीकला	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	खुट	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	साल्है	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	कोसमी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	खारी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00012	नगझिर	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00013	बूढेनाकला	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00014	गुदमा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00015	पखारा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	विजयपानी कला	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00017	चिमनाखारी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	मलारा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	गोरखपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	पिंडरईकला	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00021	खामी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	सरेखाकला	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	जावरकाठी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	छपारा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	अतरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	जनमखारी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	धोबीसरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	ताखलाखुर्द		धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	टेटमा		धानअसिचित	-	-	-	-

		00031	लालपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00032	गांगपुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	बेहरई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	उमरवाडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00035	मउ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00036	गोडेगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	घीसी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	केकडई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	धारनाकलौ	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	पौनारकलौ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	मण्डी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	कांचना		धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	मानेगांवकलौ	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	बम्हनी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00045	चिरचिरा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00046	मगरकठा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	टिकारी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	बरघाट		धानअसिचित	-	-	-	-
		00049	लोहारा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	पौनिया	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	बुढेना खुर्द	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00052	मानेगांवखुर्द	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00053	भीमपाठा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00054	कुडीपार	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00056	टिकारी(आमा)	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	आमागढ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	जेवनारा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00058	नर्येगांव	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00059	काठी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00060	उसरी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00061	शुक्ला	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00062	अरी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00063	गुरीपाठा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00064	साल्हेखुर्द(गुरी)	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00065	निवारी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00066	साल्हेकलौ		धानअसिचित	-	-	-	-
		00067	नंदीरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00068	नांदी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00069	कल्याणपुर	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00070	सेला		धानअसिचित	-	-	-	-
		00071	अखीवाडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00072	अंतरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00073	आष्टा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00074	पिपरिया	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00075	कन्हरगांव	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00076	सजनवाडा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00077	पनवास		धानअसिचित	-	-	-	-
		00078	ताखलाकलौ	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00079	बोरीखुर्द	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00080	गोकलपुर	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00081	मोहगांव	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00082	घपारा(गंगे)	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00083	दुल्हापुर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00084	तिधरा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00085	सरेखा खुर्द		धानअसिचित	-	-	-	-
		00086	अमरला	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00087	दौंदीवाडा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00088	बिरहली	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-

		00089	इन्दौरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00090	जाम		धानअसिचित	-	-	-	-
		00091	पांडरवानी	धानसिचित	-	-	-	-	-
लखनादौन									
	आदेगांव								
		00045	खुबी रं.		धानअसिचित	-	-	-	-
		00046	परासिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00047	गौराबीबी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00048	पाथरकाठी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00049	बोरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00050	औरापानी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00051	रामनगरी		धानअसिचित	-	-	-	मक्का
		00052	पिपरिया मेहरा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	मक्का
		00053	खखरिया		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00054	पाटन		धानअसिचित	-	-	-	मक्का
		00055	मढी		धानअसिचित	-	-	-	मक्का
		00056	मोहगांवगुजर		धानअसिचित	-	-	-	मक्का
		00057	पिंडरई		धानअसिचित	-	-	-	मक्का
		00058	सागर		धानअसिचित	-	-	-	-
		00059	करछुवाई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00060	जोवा		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00061	आदेगांव		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00062	बिचुवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00063	मचवाडा		धानअसिचित	-	-	-	मक्का
		00064	जमुवा		धानअसिचित	-	-	-	मक्का
		00065	कटौरी		धानअसिचित	-	-	-	मक्का
		00066	बीबी		धानअसिचित	-	-	-	मक्का
		00067	आमई		धानअसिचित	-	-	-	-
		00068	पुरवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00069	डाला		धानअसिचित	-	तुअर	-	-
		00070	सुहागपुर		धानअसिचित	सोयाबीन	तुअर	-	-
	धुमा								
		00001	बिछुवा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00005	बेलखेडी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00006	बंधा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00007	सलैया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00008	मोहगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00009	सिल्पनी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00010	जुगरई मा0		धानअसिचित	-	-	-	-
		00011	बंजारी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00012	धरपाठा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00013	खम्ही		धानअसिचित	-	-	-	-
		00014	छपरा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00016	घोघरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00018	डौंगरगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00019	पौडी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00020	खनरिया		धानअसिचित	-	-	-	-
		00021	धानककडीमा0		धानअसिचित	-	-	-	-
		00022	झामर मा0		धानअसिचित	-	-	-	-
		00023	धपारा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00024	मोहगांव		धानअसिचित	-	-	-	-
		00025	मढदेवरी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00026	भौरगढी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00027	चरगांव र0		धानअसिचित	-	-	-	-
		00028	बैगापिपरिया मा0		धानअसिचित	-	-	-	-
		00029	केवलारी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00030	निधानी		धानअसिचित	-	-	-	-
		00031	गरघटिया मा0		धानअसिचित	-	-	-	-

		00032	बावली	धानअसिचित	-	-	-	-
		00033	थावरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00034	करनपुर रौ	धानअसिचित	-	-	-	-
		00035	खैरनरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00036	जोबा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00037	सनाईडीगरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00038	मकरझिर	धानअसिचित	-	-	-	-
		00039	घोघरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00041	लिंगपानी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00042	उकारपार	धानअसिचित	-	-	-	-
		00043	पाठादेवरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00044	डुंगरिया	धानअसिचित	-	-	-	-
		00002	दरगढा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00040	घूरवाडा	धानअसिचित	-	-	-	-
			लखनादौन					
		00071	पिडरई	धानअसिचित	-	-	-	-
		00072	सिरमंगली	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00073	भरगा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00074	गंगई	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00075	चूलगांव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00076	करनपुर	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00077	लखनादौन	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00078	मोहगांव कला	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00079	सांगई माल	धानअसिचित	-	-	-	-
		00080	सिरोलीपार	धानअसिचित	-	-	-	-
		00081	शिकारा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00082	सेलुवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00083	भिलमा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00084	पूरवा मा0	धानअसिचित	-	-	-	-
		00085	नवलगांव	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00086	सिहोरा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00087	चूरका	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00088	घोघरी	धानअसिचित	-	-	-	-
		00089	मलखेडा	धानअसिचित	-	-	-	-
		00090	सहसना	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00091	भजिया	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00092	खमरिया गोसाई	धानअसिचित	-	-	-	-
		00093	बूढवानी	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00094	बटका	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00095	खुरसीपार	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00096	मोहगांव खुद	धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00097	बगलई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00098	आमई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00099	सेलुवा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00101	बम्होडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00102	मडई	धानअसिचित	-	-	-	-
		00103	गुगवारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00104	सहजपुरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00105	गनेशगंज	-	सोयाबीन	-	-	-
		00106	बिजना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00107	रायचौर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00108	बदनीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00109	जोगीगुफा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00110	बाम्हनवाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
			सिवनी					
			बण्डोल					
		00001	बखारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	समनापुरमाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	चारगाव	-	सोयाबीन	-	-	मक्का
		00004	सागर	-	सोयाबीन	-	-	मक्का
		00005	औरिया रौ	-	सोयाबीन	-	-	मक्का
		00006	छिदग्वार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	मनीरी	-	सोयाबीन	-	-	मक्का

		00008	हिर्नोतिया			सायाबीन			
		00009	जाम			सायाबीन		मक्का	
		00010	जैतपुरखुर्द			सायाबीन		मक्का	
		00011	कन्हरगांव			सायाबीन		मक्का	
		00012	हथनापुर			सायाबीन		मक्का	
		00013	पिपरिया			सायाबीन		मक्का	
		00014	कमकासुर			सायाबीन		मक्का	
		00015	मडवा			सायाबीन		मक्का	
		00016	भाटीबाडा			सायाबीन		मक्का	
		00017	मृगवानीखुर्द			सायाबीन		मक्का	
		00018	मारवोडी			सायाबीन		मक्का	
		00019	चंदौरी कला			सायाबीन		मक्का	
		00020	कोठिया			सायाबीन		मक्का	
		00021	बिहिरिया			सायाबीन		मक्का	
		00022	जमुनियां			सायाबीन		मक्का	
		00023	दुकली			सायाबीन		मक्का	
		00024	बांकी			सायाबीन		मक्का	
		00025	जूरतरा			सायाबीन		मक्का	
		00026	गोरखपुर कला			सायाबीन		मक्का	
		00027	अलोनियां					मक्का	
		00028	परासिया					मक्का	
		00029	बीसाबाडी			सायाबीन		मक्का	
		00030	कुकलाह			सायाबीन		मक्का	
		00031	बण्डोल			सायाबीन		मक्का	
		00032	गरठिया			सायाबीन		मक्का	
		00033	दिघोरी			सायाबीन		मक्का	
		00034	मृगवानीकला			सायाबीन		मक्का	
		00035	पुसेरा		धानअसिचित	सायाबीन		मक्का	
		00036	भोगाखंड		धानअसिचित	सायाबीन		मक्का	
		00037	सोनाडोगरी		धानअसिचित	सायाबीन		मक्का	
		00038	बिहिरिया		धानअसिचित	सायाबीन		मक्का	
		00039	खामखरेली		धानअसिचित	सायाबीन		मक्का	
		00040	सिहोरा		धानअसिचित	सायाबीन		मक्का	
		00041	बलारपुर		धानअसिचित	सायाबीन		मक्का	
	भोमा								
		00042	भाटीबाडा		धानअसिचित	सायाबीन			
		00043	पोडी			सायाबीन			
		00044	खिरखिरी			सायाबीन			
		00045	महलोन			सायाबीन			
		00046	कलारबांकी		धानअसिचित	सायाबीन		मक्का	
		00047	थावरी			सायाबीन		मक्का	
		00048	डोकररांजी		धानअसिचित	सायाबीन			
		00049	बगलई				तुअर		
		00050	चन्दनवाडा कला				तुअर		
		00051	चन्दनवाडा खुर्द			सायाबीन	तुअर		
		00052	थावरी		धानसिचित	सायाबीन		मक्का	
		00053	हिर्नोतिया		धानसिचित	धानअसिचित		मक्का	
		00054	आमाकोला		धानसिचित	सायाबीन		मक्का	
		00055	डिवटी					मक्का	
		00056	छतरपुर			धानअसिचित			
		00057	मुण्डरई			धानअसिचित			
		00058	जोरावारी		धानसिचित				
		00059	बम्हनी		धानसिचित				
		00060	खैरी		धानसिचित				
		00061	जूरतरा		धानसिचित			मक्का	
		00062	डैका		धानसिचित	सायाबीन			
		00063	खमरिया		धानसिचित			मक्का	
		00064	सिधोडी			सायाबीन			
		00065	डूण्डासिवनी			सायाबीन			
		00066	मानेगांव			सायाबीन			
		00067	मोरडोगरी		धानसिचित	सायाबीन			
		00068	छुई		धानसिचित	सायाबीन			

		00069	उमरिया		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00070	कान्हीवाडा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00071	चुटका	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00072	भटेखारी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00073	कामता	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00074	कटिया	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00075	भोमा	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00077	कन्हानपिपरिया			सोयाबीन	-	-	-
		00078	सीलावाडा	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00079	छीतापार			सोयाबीन	-	-	-
		00080	झीलपिपरिया		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00081	ईदावाडी	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00082	उडेपानी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00083	विजपानीखुर्द	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00084	मुंडरई	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00085	माहलझिर	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00086	समनापुर	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00087	मेहरापिपरिया	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00088	मैली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00089	लुंगसा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00090	महराखापा	धानसिचित	धानअसिचित	-	-	-	-
		00091	करकोटी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00092	पाधरफोडी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00093	चीचबंद	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00094	डुंगरिया	धानसिचित	-	-	-	-	-
		00076	भोमाटोला	धानसिचित	-	-	-	-	-
		सिवनी 1							
		00107	बिठली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00110	डोरलीछतरपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00111	मैली		धानअसिचित	-	-	-	-
		00112	बोरदई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00113	खैरी		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00114	लखनवाडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00115	बम्होडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00116	संगई		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00117	जैतपुरकलौ		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00118	जम्निया		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00119	कोहका		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00120	पीपरडाही		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00121	फुलारा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00122	ऐरपा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00123	मोहगांव		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00124	कातलबोडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00125	कारीरात		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00126	भंडारपुर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00127	खमरिया		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00128	चांवडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00129	सीलादेही		-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00130	नंदौरा	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00131	सुकवाह	धानसिचित	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00132	गोपालगंज	धानसिचित	-	-	-	मक्का	-
		00133	बम्हनी	धानसिचित	-	-	-	-	-
		सिवनी 2							
		00095	कंडीपार		धानअसिचित	-	-	मक्का	-
		00096	नगझर		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00097	बीझावाडा रै.		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00098	लूधरवाडा		धानअसिचित	-	-	-	-
		00099	सिमरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00100	नरेला		धानअसिचित	सोयाबीन	-	मक्का	-
		00101	तिघरा		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00102	लोनिया		धानअसिचित	सोयाबीन	-	-	-
		00106	कोहका		धानअसिचित	-	-	-	-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	खरीफ		वर्ष	2016-2017	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की हल्कावार सूची						
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा	
अशोकनगर	shadoura										
		जलालपुर									
			00019	पदमघटा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00020	कुदोरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00021	सडूमरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00022	काछीबामोरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00023	राजेवामोरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00024	अखाईकृष्ण	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00025	बामोरीताल	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00026	अमोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00027	मढीकानुलगो	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00028	सतउखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00029	झीला	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00030	ककराई	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00031	जलालपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00032	मोहरी ज्ञान	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00033	मथनेर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00034	ककरुआराय	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00035	भैंसरवास	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
		शाढोरा									
			00001	बरखेडानई	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00002	पीपरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00003	भिसरसीनई	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00004	उमरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00005	किरौदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00006	वायंगा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00007	बगुल्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00008	म्यापुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00009	रंझा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00010	चिचरोली	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00011	गता शाढोरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00012	पीलीघटा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00013	पहाडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00014	करख्या	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00015	शाढोरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00016	बमूरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00017	सेमरी शाहवादा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00018	सेजी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
अशोकनगर											
		अशोकनगर									
			00001	दियाधरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00002	तरावली	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00003	सिजावट	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00004	धौरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00005	रातीखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00006	पडरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00007	आंवरीमाफी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00008	रांवसरखालसा	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00009	सहोदरी	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00010	बमूरियाफूट	-	-	सोयाबीन	-	-	-	
			00011	बाबूपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-	

		00012	गरौली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	डंगोरफूट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	मडखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	लखेरी बसारती	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	नारायणपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	रिजौदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	करियाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	कजरई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	खिरियागुहांस	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	सिरसीपछार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	कोलुआ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	कबीरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	बरबरखेडी जागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	नगेश्री	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	मोहरीराय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	अशोकनगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	भोराकाछी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	भोराखाती	-	सोयाबीन	-	-	-
	कचनार							
		00030	बारमहू	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	सोहत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	खेजराहाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	काकाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	मेनाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	पिपरियाराय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	करैयाराय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	सेमराहाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	खेजराखुर्द	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	सोनेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	मसीदपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	अखाईटप्पपा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	धमना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	कचनार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	झागर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	बरखेडा छज्जू	-	सोयाबीन	-	-	-
	राजपुर							
		00046	जतौली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	आमखेडा तूमेन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	सिकंदरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	देवखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	हिंगोनिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	बेरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	भादोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	सावन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	बरखेडा लाल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	सेमरा पहाड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	तूमेन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	शवाजपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	करैयाबुद्धु	-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	बरोदिया तूमेन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	खजूरियाकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	कूडईतूमेन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	महूआलमपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	राजपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	आमखेडा सूखा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	छीपोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	रेपरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	बामोरा	-	सोयाबीन	-	-	-

		00069	सेमरा बामोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	डोंगरापछार	-	सोयाबीन	-	-	-
	ईसागढ							
	ईसागढ							
		00017	गहोरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	जंघार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	पारसोल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	भेलवासा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	मानकचौक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	तिगरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	कोहरवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	भरौली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	भगवानपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	खिरियादेवत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	बमनाबर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	आनंदपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	आकलोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	ईसागढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	मामौन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	दयालपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	शंकरपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	श्यामाटोरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	ढाकोनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	कुलवार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	लहिदपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	नरसूखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
	कदवाया							
		00001	ईदौर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	सर्करा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	कदवाया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बखतर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	भैसरवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	अनघोरादीवान	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	बन्देवगढ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	मनहेटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	केशोपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	सिरनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	सिलपटी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	छपरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	महूअन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	गनेशखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	फुटेरा उर्फ नयागाँव	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	ईगामोचार	-	सोयाबीन	-	-	-
	सारसखेडी							
		00039	खमखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00040	सारसखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	पिपरोदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	पिपरेसरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	परासरी धुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	धुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	कन्हैरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	बमूरिया नई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	महाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	रुहाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	राजतला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	फुटेरा पछार	-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	हिनोतिया फूट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	छीरखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-

(Handwritten signature)

		00054	सेमरखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	पाकरोड	-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	जनीदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	वायवैनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	पाठखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	हैदर	-	सोयाबीन	-	-	-
	चन्देरी							
	चन्देरी							
		00001	महोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	लिधोरा मूजप्ता	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	मोहनपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	गोधन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	खेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	गोराकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	चुरारी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	हिरावल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	बडेरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	सकवारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	नानकपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	विक्रमपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	खागल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	सोतेर	-	सोयाबीन	-	-	-
	धुवोन							
		00027	सिगपुरचालदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	रामनगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	बांकलपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	देवलखो	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	पिपरोद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	सुरेल	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	धुवोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	नयाखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	नावनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	डुंगासरा	-	सोयाबीन	-	-	-
	नईसराय							
	नईसराय							
		00001	घुरवारकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	रावसरजागीर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	अखाईघाट	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	पीरुखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	कालाबाग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	मैसा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	डुंगासरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	देपालखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	रूसल्ला बुजुर्ग	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	नईसराय	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	छापर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	मेहमूदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	जानपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	कांकडा	-	सोयाबीन	-	-	-
	महिदपुर							
		00015	बीसोर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	सीहोर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	अमरोद सिगराना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	सीगाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	कडेसरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	अजलेश्वर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	घटावदा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	पिपरोल	-	सोयाबीन	-	-	-

		00023	मढीमहिदपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	महिदपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	कुरायला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	सांदोह	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	देरखा	-	सोयाबीन	-	-	-
	पिपरई							
	तारई							
		00001	खिराका टांक	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	डोगर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	भरियाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	अमरौद	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	कुकरेठा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	तारई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	ललोई टांका	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	मोहरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	भटोली	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	खेराइ	-	सोयाबीन	-	-	-
		00011	रहटवास	-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	मूडराकला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	सीगोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	आकेत	-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	गरेठी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	जमाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	बामोरी चन्देरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	नानोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00019	अररोन	-	सोयाबीन	-	-	-
	पिपरई							
		00020	केनवारा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	खोरीबरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	बरखेडा पिपरई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00023	बांसखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	कर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	पिपरई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	केशोपुर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	खोकसी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	सिघाडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	सिलावन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	खुजराई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	मूडराबहादुरा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	मलावनी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00033	बमूरिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	छेवलाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	बरी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	सागर अथाई	-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	रुसल्ला	-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	ढोडिया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	तमाशा	-	सोयाबीन	-	-	-
	मुंगवली							
	अथाईखेडा							
		00001	अथाईखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00002	ढकन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00003	मूडराखाना	-	सोयाबीन	-	-	-
		00004	बीलाखेडी	-	सोयाबीन	-	-	-
		00005	बीलाखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00006	केशलोन	-	सोयाबीन	-	-	-
		00007	पीपलखेडा	-	सोयाबीन	-	-	-
		00008	जसैया	-	सोयाबीन	-	-	-
		00009	टीटोर	-	सोयाबीन	-	-	-
		00010	बेलई	-	सोयाबीन	-	-	-

		00011	दमदमा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00012	झागर बमुरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00013	अमोदा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00014	मथाना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00015	जारोली छुबयाई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00016	गुपलिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00017	बरखेडा जमाल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00018	इकोदिया		-	सोयाबीन	-	-	-
	बहादुरपुर								
		00019	घाट बमुरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00020	मदउखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00021	ओंडेर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00022	गीलारोपा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		00024	सुमेर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00025	बरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00026	बाबरोद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00027	गोरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00028	लपतोरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00029	भ्याना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00030	नरखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00031	मल्हारगढ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00032	पिपरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
			मल्हारगढ		-		-	-	-
		00033	खजुरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00034	बामोरीखुटिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00035	बिल्हेरू		-	सोयाबीन	-	-	-
		00036	गदुली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00037	ककावली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00038	जारोली बुजुर्ग		-	सोयाबीन	-	-	-
		00039	बखेडा काछी		-	सोयाबीन	-	-	-
	मुंगावली								
		00040	टीला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00041	नादनखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00042	बीडसरकार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00043	तारई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00044	बामोरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00045	पारकना		-	सोयाबीन	-	-	-
		00046	साजन मउकला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00047	दिमघोली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00048	अचलगढ		-	सोयाबीन	-	-	-
		00049	सहराई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00050	बन्मन खिरिया		-	सोयाबीन	-	-	-
		00051	गुनहेरू		-	सोयाबीन	-	-	-
		00052	बरवाह		-	सोयाबीन	-	-	-
		00053	मूडरा मुंगावली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00054	सोनाई		-	सोयाबीन	-	-	-
		00055	आमनघार		-	सोयाबीन	-	-	-
		00056	पठारी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00057	चिराली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00058	बामोरी टांका		-	सोयाबीन	-	-	-
		00059	डोंगरा		-	सोयाबीन	-	-	-
		00060	सोनाखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00061	मदउखेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00062	किरोला		-	सोयाबीन	-	-	-
		00063	झागर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00064	भोपाल		-	सोयाबीन	-	-	-
		00065	मीरकाबाद		-	सोयाबीन	-	-	-
		00066	हुरेरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00067	कस्वारेज		-	सोयाबीन	-	-	-
		00068	दुडेर		-	सोयाबीन	-	-	-
		00069	दिचरी		-	सोयाबीन	-	-	-
		00070	बाढोली		-	सोयाबीन	-	-	-
		00071	सावलहेडा		-	सोयाबीन	-	-	-